



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 श्रावण 1940 (श10)  
(सं० पटना 762) पटना, बृहस्पतिवार, 9 अगस्त 2018

---

परिवहन विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2018

सं० 06/वि0(डिजीलॉकर)-32/2018-5099—विभाग, बिहार सरकार द्वारा डिजीटल व्यवस्था को प्रोत्साहित किये जाने एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित डिजीलॉकर के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा अपने DL एवं RC को आवश्यकतानुसार सुरक्षित रखे जाने तथा उसका उपयोग हेतु निर्णय लिया गया है। इससे नागरिकों को समय की बचत के साथ प्रासंगिक अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी एवं अनावश्यक परेशानी में कमी की जा सकेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब से नागरिकों को 'चालक अनुज्ञप्ति' तथा 'वाहन निबंधन प्रमाणपत्र' को भौतिक रूप में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके विकल्प स्वरूप उनके द्वारा अपने मोबाईल फोन के 'डिजीलॉकर ऐप' (Digilocker App) के अंतर्गत उपलब्ध अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या GSR-711(E) दिनांक 21.7.2016 के माध्यम से एक 'डिजीलॉकर प्राधिकार' गठित किया गया है जिसके तहत विकसित डिजीटल प्लेटफार्म के अंतर्गत मूलतः निर्गत प्रमाणपत्र एवं अन्य अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप संग्रहित है। इसे नागरिकों के "आधार नम्बर" के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस डिजीटल प्लेटफार्म के अंतर्गत वर्तमान में नागरिकों को निर्गत चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) की सुविधा उपलब्ध है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल रजिस्टर से इंटीग्रेट किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत डिजीलॉकर में उपलब्ध ये अभिलेख एवं प्रमाणपत्र मूल अभिलेख/प्रमाणपत्र के समरूप समझा जायेगा बशर्ते वह लिंक आधारित या डाटाबेस से निर्गत प्राधिकार द्वारा निर्गत होअर्थात् यह व्यवस्था मात्र issued document हेतू लागू होगा, न कि uploaded document में।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित डिजीलॉकर के साथ सम्बद्ध है जिसके फलस्वरूप नागरिकगण चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) अपने “आधार नम्बर” के माध्यम से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं ।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित अभिलेख/प्रमाणपत्र के डिजीलॉकर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रति को मूल प्रति के रूप में उपयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

1. चालक अनुज्ञप्ति (DL)

2. वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC)

अस्वीकरण (Disclaimer)—यह अधिसूचना ऐसे मामलों में प्रभावी नहीं होगा, जिनमें चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) नियमों के अधीन जप्त करने की आवश्यकता हो ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 762-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>